



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 2011/पौष 27, 1932

No. 85]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 17, 2011/PAUSA 27, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2011

का.आ. 95(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 में प्रकाशित, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2666(अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में, अंक और अक्षर '3(A)' को अंक और अक्षर '3(a)' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. एनएच-6-12014/3/2008-एमएच]

एस. नरेन्द्र, निदेशक

पाद टिप्पणी :—मूल अधिसूचना, दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2666(अ), दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT
AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2011

S.O. 95(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Road Transport and Highways No. S.O. 2666(E), dated the 22nd October, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 22nd October, 2009, namely :—

In the preamble to the said notification, for the figure and letter "3(A)", "3(a)" shall be substituted.

[F. No. NH-6-12014/3/2008-MAH]

S. NARENDRA, Director

Foot Note :—The principal notification was published vide S.O. 2666(E), dated the 22nd October, 2009 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated 22nd October, 2009.